



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित .

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 1977/माघ 18, 1898

No. 27] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 1977/MAGHA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 7th February 1977

No. 1/2/76-AD.C.—In the Schedule to the Resolution of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 1/2/76-AD.C., dated the 22nd January, 1977 reconstituting the Advisory Council on Trade with effect from 1-1-1977, the following changes shall be made:—

“Against Sl. No. 2 the following may be substituted:—

Minister of State in the Ministry of Commerce	} Vice-Chairmen”
Dy. Minister of Commerce	

2. Para 3 of the aforesaid Resolution shall be substituted as follows:—

“The Council will include the representatives of some of the principal commercial organisations in the country and its composition will be as indicated in the Schedule to this Resolution. The meetings of the Council will be presided over by the Minister of Commerce and in his absence by the Minister of State in the Ministry of Commerce. In the event of absence of both the Minister and the Minister of State the Deputy Minister of Commerce will preside over the meetings of the Council. The members will hold office for a period of two years (ie with effect from 1st January 1977 to 31st December, 1978), at the end of which the Council will be reconstituted”

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman Deputy Chairman, Members of the Advisory Council on Trade the Private and

Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1977

सं० 1/2/76-सलाहकार परिषद.—भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 1/2/76-सलाहकार परिषद दिनांक 22 जनवरी, 1977 के लिए अनुसूची में जिस में व्यापार विषयक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है उसमें 1-1-1977 से निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

“क्रम सं० 2 के सामने निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

राज्यमंत्री, वाणिज्य मंत्रालय	} उप-अध्यक्ष”
उपमंत्री, वाणिज्य मंत्रालय	

2. उपर्युक्त संकल्प की कंडिका 3 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“परिषद में देश के कुछ मुख्य वाणिज्यिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसका गठन इस संकल्प की अनुसूची में यथानिर्दिष्ट होगा। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता वाणिज्य मंत्री द्वारा की जायगी और उनकी अनुपस्थिति में वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की अनुपस्थिति में उप-वाणिज्य मंत्री द्वारा बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। सदस्य दो वर्षों (अर्थात् 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1978) की अवधि के लिए सदस्य रहेंगे उसके पश्चात् परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा।”

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति व्यापार सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और भारत में सभी राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977